

अंक 18, 17 अगस्त 2017

# संगठन संवाद पत्र

## विस्तृत प्रवास, कर्नाटक

12, 13 और 14 अगस्त 2017



ಶತಾಬ್ದಿ ವಿಸ್ತಾರಕರ ಸಭೆ

13 ಅಗಸ್ಟ್ 2017



# उत्वाङ्ग फेको

# भारत कांग्रेस सरकार को



12 अगस्त 2017

(प्रातः 6:50 से रात्रि 12:00)




- 6.50 दिल्ली निवास से हवाई अड्डा के लिए प्रस्थान
- 7.55 दिल्ली हवाई अड्डा से बेंगलूरु के लिए प्रस्थान
- 10.45 बेंगलूरु हवाई अड्डे पर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा स्वागत
- 10.55 बेंगलूरु हवाई अड्डे से प्रदेश कार्यालय के लिए प्रस्थान और मार्ग में दर्जनो स्थानों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत
- 11.50 प्रदेश कार्यालय में आगमन और पुस्तकालय का उद्घाटन
- 12.10 प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में श्री शाह ने कोर ग्रुप की कार्य पद्धति और एजेंडा निर्धारित किया
- 1.00 कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में भोजन
- 2.30 विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में श्री शाह ने सभी जनप्रतिनिधियों को सारे राजनैतिक कार्य छोड़ कर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया
- 4.00 होटल गार्डिनिया के लिए प्रस्थान
- 4.30 होटल गार्डिनिया के सभागार में प्रदेश से ले कर जिले स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से अपने विचार रखने का अवसर देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यथोचित जवाब देकर सभी को संतुष्ट किया और उन्हें परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया
- 6.30 बुद्धिजीवियों के विशाल समूह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने भाजपा की विचारधारा को मजबूती से रखा और मोदी सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों को भी रखांकित किया
- 8.10 बेंगलूरु के विशिष्टजनों के साथ भोजन के दौरान श्री शाह ने मेहमानों की व्यापार जगत से जुड़ी अनेकों आशंकाओं और जिज्ञासाओं को दूर किया
- 9.15 प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक
- 10.45 कुमारकृपा गेस्ट हाउस में आगमन
- 11.00 पार्टी के वरिष्ठ साथियों के साथ दिन भर के कार्यक्रम की समीक्षा
- 12.00 रात्रि विश्राम



13 अगस्त 2017

(प्रातः 7:50 से रात्रि 12:30)

- 7.50 वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों के साथ नाश्ते पर चर्चा
- 8.35 प्रदेश कार्यालय में आगमन
- 8.40 प्रदेश चुनाव विभाग द्वारा चुनाव रणनीति पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति के पश्चात श्री शाह ने चुनाव विभाग के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये
- 9.45 आदिचुन्वानागिरी आश्रम, मंड्या जिले के लिए प्रस्थान। मार्ग में दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत
- 11.40 आदिचुन्वानागिरी आश्रम में आगमन और मंदिर में पूजन
- 11.45 आदिचुन्वानागिरी आश्रम में श्री श्री डॉ. निर्मलानंदनाथा की उपस्थिति में पुस्तक का विमोचन और स्वागत कार्यक्रम के पश्चात साधू-संतों के साथ भोजन और शैक्षिक संस्थान का अवलोकन
- 3.15 आदिचुन्वानागिरी आश्रम से प्रस्थान
- 4.40 जिंदल नेचरोपैथी सेंटर में आगमन
- 4.45 पंडित दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना में निकले पूर्णकालिक विस्तारकों को स्वयं प्रशिक्षण देकर उन्हें उत्साहित किया और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उनके समन्वय की रणनीति तय की
- 6.05 कार्यालय निर्माण प्रकल्प के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिले स्तर तक कार्यालय निर्माण में हुई प्रगति की रिपोर्ट ली और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये
- 7.00 श्री श्री रविशंकर के आश्रम के लिए प्रस्थान
- 7.40 आर्ट ऑफ लविंग आश्रम में आगमन और स्वागत समारोह
- 8.10 आर्ट ऑफ लविंग आश्रम में गणपति आरती और पूजन
- 8.25 आर्ट ऑफ लविंग आश्रम में श्री श्री और अन्य पार्टीजनों के साथ भोजन
- 10.20 प्रदेश कार्यालय में आगमन और कोर ग्रुप के साथ बैठक
- 12.15 कुमारकृपा गेस्ट हाउस में आगमन
- 12.30 रात्रि विश्राम



14 अगस्त 2017

(प्रातः 8:00 से रात्रि 12:00)



- 8.00 पार्टी पदाधिकारियों के साथ नाश्ते पर चर्चा
- 8.45 संघ कार्यालय के लिए प्रस्थान
- 9.15 संघ कार्यालय में आगमन और वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुले मन से चर्चा
- 11.30 होटल विंडसर मनोर के लिए प्रस्थान
- 11.50 होटल विंडसर मनोर में आगमन और नव गठित प्रकल्पों और विभागों के प्रतिनिधियों के परिचय के उपरांत श्री शाह ने उनके लिए समयबद्ध लक्ष्यों का निर्धारण किया
- 1.15 होटल विंडसर मनोर में वरिष्ठ मीडिया कर्मियों और संपादकों के साथ चर्चा
- 2.15 होटल वेस्ट एंड के लिए प्रस्थान
- 2.40 होटल वेस्ट एंड में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने मीडिया के प्रश्नों के सधे हुए जवाब दिए
- 3.25 कोर ग्रुप बैठक में लोकसभा प्रभारियों के साथ बैठक
- 4.25 आई.टी. और मीडिया विभाग की पावर प्वाइंट प्रस्तुतियों के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विभागों के लक्ष्य तय किये
- 5.50 आजीवन सहयोग निधि के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में लक्ष्यों का निर्धारण किया
- 6.25 पिछड़े वर्गों के एक बड़े समूह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने इस समाज के प्रति भाजपा की संवेदना व्यक्त करते हुए सहयोग का आग्रह किया
- 7.15 वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भोजन
- 7.45 हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान
- 9.15 दिल्ली के लिए प्रस्थान
- 12.00 दिल्ली निवास में आगमन



# उत्पाड़ फेको ढ्रष्ट कांग्रेस सरकार को

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तीन दिवसीय कर्नाटक प्रवास पार्टी एवं संगठन के विकास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी एवं पार्टी के हित में रहा है। इस दौरान श्री अमित शाह द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने, पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने का परिणाम है कि कर्नाटक में पार्टी का संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत हुआ है। कर्नाटक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों को उजागर करने की दृष्टि से कर्नाटक प्रवास की उपयोगिता कई मायने में बेहद अहम है। कर्नाटक में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रवास को पार्टी उपयोगी मान रही है।



- श्री शाह ने प्रदेश सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश की सबसे ढ्रष्ट सरकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस उद्घोष से स्पष्ट हो गया कि भाजपा अगला विधानसभा चुनाव ढ्रष्टाचार और कुशासन को सबसे बड़ा मुद्दा बना कर लड़ेगी।
- प्रेस वार्ता के दौरान श्री शाह ने कहा कि प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली धनराशि को मोदी सरकार ने 88,583 करोड़ से बढ़ा कर 2,19,506 रुपये कर दी है, जो कि 1,30,932 करोड़ की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त केंद्र ने बंगलूरू मेट्रो के लिए 2,617 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 27,482 करोड़ और अमृत मिशन के लिए 4,953 करोड़ रुपये के साथ अन्य योजनाओं में हजारों करोड़ की धनराशि कर्नाटक प्रदेश को दी है। श्री शाह ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए पूछा इतनी बड़ी राशि कहाँ गई, क्योंकि प्रदेश के गरीबों और किसानों कि हालत बद से बदतर हो रही है। श्री शाह द्वारा दिए गए इन आकड़ों से भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदेश सरकार पर आक्रामक नीति अपनाने का बहुत प्रभावी हथियार मिला है।
- जिले स्तर के कार्यकर्ताओं को खुले मंच से अपना विचार रखने का मौका देकर शाह ने उनका विश्वास जीता और उन्हें यह कह कर प्रोत्साहित किया कि जिले स्तर पर वही भाजपा का चेहरा हैं और उनकी ही मेहनत से पार्टी को सफलता मिलेगी।
- पं. दीनदयाल विस्तारक योजना में निकले पूर्णकालिक विस्तारकों को स्वयं प्रशिक्षण देने के साथ श्री शाह ने विस्तारक कार्यक्रम में सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों के और मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों को एक निश्चित

योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रयास से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी जो कि चुनावी दृष्टि से भाजपा को अभूतपूर्व लाभ पहुंचाएगी।

- श्री शाह ने लाखों प्रदेश वासियों की आस्था का प्रतीक सदियों पुरानी आदिचुन्वानागिरी पीठ में कई घंटे गुजारे और मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इस प्रयास आदिचुन्वानागिरी से जुड़े श्रद्धालुओं का विश्वास प्राप्त किया।
- श्री शाह ने पार्टी संचालन में सम्पूर्ण आर्थिक ईमानदारी लाने के उद्देश्य से बने आजीवन सहयोग निधि प्रकल्प में हुई प्रगति का जिस सूक्ष्मता से निरिक्षण किया उससे निश्चित रूप से पार्टी के अन्दर सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा का एक मजबूत सन्देश गया।
- वर्तमान राजनैतिक परिवेश में सोशल मीडिया के महत्व को समझाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी विभिन्न विधियों को बूथ स्तर तक ले जाने की योजना निश्चित की जिससे पार्टी की, त्वरित सूचना प्रसार क्षमता को मजबूती मिलेगी।
- राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने तीन दिवसीय प्रवास के दौरान विभिन्न मंचों से स्पष्ट किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के नेतृत्व में लड़ेगी। श्री शाह के इस बयान से कार्यकर्ताओं में प्रदेश नेतृत्व के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वह एक निश्चित दिशा में अगले चुनाव के तैयारी कर सकेंगे।

# बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ प्रकल्प

भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” का नारा दिया। भाजपा हमेशा से समाज में भेदभाव के खिलाफ और समानता की पक्षधर रही है। समाज में बेटियों को उचित सम्मान एवं उनकी योग्यता को अवसर मिले इसके लिए प्रधानमंत्री के इस नारे को संकल्प रूप में लेते हुए पार्टी ने “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” प्रकल्प की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम मात्र सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पार्टी के लिए भी आग्रह का विषय भी है। इसके लिए संगठन के स्तर पर प्रयास भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकल्प का उद्देश्य बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को जन-जागरूकता के माध्यम से सुनिश्चित करना है। इसके साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा को लेकर जागरूक समाज का निर्माण करना भी है। इस प्रकल्प के अंतर्गत अनेक दायित्व तय किए गए हैं, जो कार्य योजना के अनुरूप संचालित हो रहे हैं।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को लेकर संचालित हो रही सरकारी योजनाओं को संगठन के माध्यम से प्रचारित करने और लोगों को इनके प्रति जागरूक करने का दायित्व “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ प्रकल्प” को दिया गया है।
- इस दिशा में केंद्र एवं प्रदेश की सरकारों द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जन-जागरण और अन्य प्रयास, मसलन कैम्प लगाकर, लोगों से मिलकर, योजनाओं पर चर्चा करके योजना को सफल बनाने के लिए काम करना, जैसे दायित्व इस प्रकल्प के लिए निर्धारित किए गये हैं।
- बेटियों की भ्रूण हत्या पर रोक तथा स्कूलों में बेटियों का ड्रॉप आउट दर कैसे कम हो, इस दृष्टि से हर संभव प्रयास करने तथा कैसे इसको अमल में लाया जाए, इस दिशा में कार्य करने का दायित्व बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ प्रकल्प का है।
- जहाँ बेटियों के ड्रॉप आउट होने की संभावना अधिक है, उन परिवारों के लिए महिला कार्यकर्ताओं की अभिभावक के रूप में नियुक्ति करते हुए ड्रॉप आउट न हो, इसके लिए ठोस और गंभीर प्रयास करने का दायित्व इस प्रकल्प का है।
- पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकल्प में सहभागी बनाते हुए इसके प्रचार-प्रसार में उनका उपयोग कैसे किया जाए, इसकी योजना यह प्रकल्प तय करता है। इस प्रकल्प से सभी कार्यकर्ता जुड़ें और “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” के सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने का काम करें व महिला कार्यकर्ता की एक समिति विभिन्न इकाईयों में इसकी निगरानी करें, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का दायित्व इस प्रकल्प का है।

## बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के विचार

एक राजनैतिक कार्यकर्ता का समाज के विकास के प्रति संवेदनशील होना अनिवार्य होता है। अतः हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि हम किसी न किसी रूप से समाज के विकास में योगदान करें। “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य हमारी बच्चियों के सर्वांगीण विकास, खास कर भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करना और बच्चियों को शिक्षित करना है। मोदी सरकार का यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जब यह एक जन आन्दोलन का रूप लेगा। अतः भाजपा कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से बहनों, का कर्तव्य है कि जन-जन में मोदी जी के “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” का सन्देश लेकर जाएँ।



“ मोदी सरकार ने कर्नाटक को विकास के लिए यूपीए की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक धनराशि दी है फिर भी कर्नाटक विकास में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, राज्य की जनता को सिद्धारमैया सरकार से इसका जवाब मांगना चाहिए, आप इसका हिसाब मांगें या न मांगें, मैं तो जरूर मांगूंगा। ”

कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार देश की भ्रष्टतम सरकार है, मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसी भ्रष्ट सरकार कहीं नहीं देखी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार के दोषियों को दंडित किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

सरकार ऐसी चुनी जानी चाहिए जो जनता की भलाई के लिए काम करे। आगामी कर्नाटक विधान सभा चुनाव में प्रदेश के विकास के लिए आप राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन करें और श्री येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री बनाएं।

\*\*\*\*\*

कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में केन्द्रीय करों में कर्नाटक की हिस्सेदारी केवल 61,691 करोड़ रुपये थी जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में इसे लगभग ढाई गुना बढ़ाकर 1,86,925 करोड़ रुपये कर दिया।

\*\*\*\*\*

मोदी सरकार ने कर्नाटक को लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर यूपीए के 6,534 करोड़ की तुलना में ढाई गुना वृद्धि ज्यादा 15,145 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं, इसी तरह नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में भी छः गुना वृद्धि की गई है।

\*\*\*\*\*

कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, जेडी (एस) का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यह सब लोगों को पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य कौन होगा, यह किसी को मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टियों से अलग है क्योंकि आज देश में मौजूद लगभग 1650 छोटी-बड़ी पार्टियों में से केवल भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र बचा हुआ है।

\*\*\*\*\*

भाजपा में अध्यक्ष किसी परिवार में जन्म लेने के आधार पर नहीं, बल्कि अपने कृतित्व के आधार पर बनते हैं, यही कारण है कि यहाँ एक बूथ कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और एक गरीब का बेटा व पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री।

भाजपा कैडर में जोश भरने 3 दिन की यात्रा पर आये पार्टी अध्यक्ष  
कर्नाटक में अगली सरकार हमारी : शाह

**Shah kicks off  
K'taka visit**

अमित शाह को भाजपा के सत्ता  
में लौटने का पूरा विश्वास

Nehru borrowed western ideas: Amit Shah in Bengaluru

अमित शाह ने दिया एकजुटता का संदेश

**शाह ने कर्नाटक में  
फूँका चुनावी बिगुल**

Solve internal  
issues ahead  
of polls: Shah  
to K'taka unit

अमित शाह आदिचंचनागिरि मठ गए

**Shah takes control in  
poll-bound Karnataka**

Amit Shah in K'taka to  
re-energise BJP cadre

Shah, RaGa in K'taka sounding poll bugle

**अब भाजपा का मिशन कर्नाटक: शाह**

**Amit Shah: Not Just  
An Election Machine**

Vokkaligas on Mind,  
Shah Visits Famed  
Adichunchanagiri Mutt

शाह ने कर्नाटक को कांग्रेसमुक्त  
करने का लिया संकल्प

येदियुरप्पा के नेतृत्व में  
कर्नाटक जीतेगे : शाह

कर्नाटक में इस बार भाजपा सरकार : शाह



**Amit Shah downplays  
Lingayat, State flag issues**

It's not the first time such a  
tragedy has occurred: Shah

**Shah sets eyes on Karnataka**

Will root out Congress  
from Karnataka: Shah

Karnataka govt most corrupt: Shah

Amit Shah in Karnataka with  
slogan *Ab Ki Baar, BJP Sarkar*

Lingayat separate religion  
demand a Cong ploy: Shah

**Shah Outlines Simple Strategy  
to Win Karnataka Elections**

Amit Shah in K'taka to  
re-energise BJP cadre



Mission K'taka: Shah visits  
Adichunchanagiri Mutt

Shah confident of BJP's win  
in 2018 Karnataka elections

**Will root out Congress  
from Karnataka: Shah**